

@shahjahanpurpol

प्रेस नोट-सराहनीय कार्य जनपद शाहजहाँपुर दिनांक 15.08.2021

SOG व थाना कोतवाली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी,

अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मे 11 करोड रूपये कीमत की (फाईन क्वालिटी) की 11 किलोग्राम अफीम, 02 लाख 37 हजार 470 रूपये नगद, 01 हुंडई वरना कार, 05 अदद मोबाइल, 18 एटीम एवं डेबिट कार्ड व अन्य पहचान पत्र सहित 03 अन्तर्राज्यीय मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार।

श्री एस आनन्द, पुलिस अधीक्षक जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार जनपद में मादक पदार्थों की रोकथाम व मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अनुक्रम में श्री संजय कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक नगर शाहजहाँपुर के पर्यवेक्षण व श्री सरवणन टी ASP/क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल निर्देशन में SOG व थाना कोतवाली पुलिस टीम को मिली बड़ी कामयाबी।

दिनांक 14.09.21 की रात्रि 21.25 बजे SOG व थाना कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर कांट रोड बरेली मोड के पास से 03 अन्तर्राज्यीय मादक पदार्थ तस्कर 1-मो0असद 2-सोनू 3-तरसेम कुमार को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 11 किलोग्राम फाइन क्वालिटी की अफीम व भारी मात्रा में नगदी मोबाइल आदि बरामद किया गया। इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

1. मो0 असद पुत्र स्व0 अब्दुल गफ्फार निवासी ग्राम रावतपुर थाना कांट शाहजहाँपुर
2. सोनू सिंह पुत्र रामसेर सिंह निवासी मो0 कर्णविहार कालोनी थाना गोला चीका जनपद कैथल हरियाणा
3. तरसेम कुमार पुत्र स्व0 बनारसीदास निवासी ग्राम सिसमौर थाना तितराम जिला कैथल हरियाणा

बरामदगी का विवरण:-

1. 11 किलोग्राम अफीम (फाईन क्वालिटी) (अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 11 करोड रूपये)
2. 237470/- रूपये नगद
3. 01 लक्सरी कार हुंडाई वरना कार
4. 05 अदद मोबाइल
5. 18 CREDIT/DEBIT CARD
- 6-03 आधार कार्ड, 03 वोटर कार्ड, 02 पैन कार्ड, 01 ड्राइविंग लाइसेंस।

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

1. मु0अ0सं0 485/21 धारा 8/18 NDPS ACT बनाम मो0असद थाना कोतवाली जिला शाह0।
2. मु0अ0सं0 486/21 धारा 8/18 NDPS ACT बनाम सोनू थाना कोतवाली जिला शाह0।
3. मु0अ0सं0 487/21 धारा 8/18 NDPS ACT बनाम तरसेम कुमार थाना कोतवाली जिला शाह0।

पूछताछ आख्या:-

अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि मो0 असद झारखण्ड राज्य के जिल रांची से भारी मात्रा में फाइन क्वालिटी की अफीम लेकर आता है तथा अपने साथी सोनू व तरसेम को सूचना दे देता है। सूचना पर अभि0 सोनू व तरसेम हरियाणा से आते हैं तथा शाहजहाँपुर पहुँचकर दोनों मो0 असद से अफीम खरीद लेते हैं और हरियाणा ले जाकर महंगे दामों पर बेच लेते हैं। आज भी यह लोग गाडी में बैठकर अफीम की खरीद फरोख्त कर रहे थे कि पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया। यह लोग करीब पिछले 02 वर्षों से यह कार्य में संलिप्त थे तथा 17-18 बार झारखण्ड से हरियाणा अफीम ले जा चुके हैं।

पुलिस टीम का विवरण:-

- 1-प्रभारी निरीक्षक श्री हरपाल सिंह थाना कोतवाली शाह0
- 2.S.O.G प्रभारी रोहित कुमार
- 3.मु0आ0 329 राजारामपाल सिंह
- 4.मु0आ0 388 अमरजीत सिंह
- 5.मु0आ0 157 उदयवीर सिंह
- 6.का0 264 ज्ञानेन्द्रप्रताप सिंह
- 7.का0 1435 दिलीप कुमार
- 8.का0 1475 अजय कुमार
- 9.का0 1405 तौसीम हैदर
- 10.का0 1805 प्रभात चौधरी
- 11.कां0 अजय कुमार सर्विलांस सेल
- 12.कां0 संजीव कुमार सर्विलांस सेल